

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 14—फरवरी 20, 2015 (माघ 25, 1936)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 14—FEBRUARY 20, 2015 (MAGHA 25, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2015

थल सेना विभाग

सं 25, दिनांक 20 जनवरी 2015—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधन के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

डी एस—12462वाई कप्तान इकबाल होसेन — 07—04—2012

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 07—10—2011 से दी जाती हैं। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह के लिए दी गई ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

एच एस संधू

ब्रिगे.

डीडीजीडीएस (पी)

एकीकृत मुख्यालय : रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

सं. 26, दिनांक 20 जनवरी 2015—राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822/डी ई एस/अनु-IV/03 दिनांक 13 जनवरी 2014 एवं एम एफ/1506/डी ई एस/अनु-I/03 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (नौसेना आयुध निरीक्षण केंद्र, वायु यातायात केंद्र, ऑब्जर्वर) एवं शिक्षा शाखा—जनवरी 2011 में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब—ले के रैंक में परखाधीन

क्रम सं०	नाम	निजी संख्या	कमीशन की किस्म	कमीशन की तिथि
सीधी भर्ती योजना				
कार्यकारी शाखा (नौसेना आयुध निरीक्षण केंद्र)				
(i)	शपांक पुजार	06917-W	स्थायी	03 जनवरी 2011
(ii)	सतबीर सिंह	06921-B	स्थायी	04 जनवरी 2011
(iii)	सनापला श्रीधर राव	06923-H	स्थायी	06 जनवरी 2011
(iv)	विद्वै रविकुमार शंकर	06924-K	स्थायी	06 जनवरी 2011
(v)	प्रकाश चन्द्र मौली	06925-N	स्थायी	10 जनवरी 2011
कार्यकारी शाखा (वायु यातायात)				
(i)	गायत्री कमलेश्वरी	06882-R	अस्थायी	03 जनवरी 2011
कार्यकारी शाखा (ऑब्जर्वर)				
(i)	एस. सविता	06911-F	अस्थायी	03 जनवरी 2011
शिक्षा शाखा				
(i)	के. एम. नीलम कंदपाल	70637-N	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(ii)	शिवा विधा सागर वर्मा दंतुलुरी	70641-Y	अस्थायी	03 जनवरी 2011
(iii)	अशेष कुमार दुबे	70647-K	अस्थायी	18 जनवरी 2011

अजय शर्मा
कप्तान
डी एम पी आर
(ओ आई एंड आर)

तटरक्षक मुख्यालय

सं. 27, दिनांक 21 जनवरी 2015—राष्ट्रपति, तटरक्षक में निम्नलिखित को उनके समक्ष दर्शाई गई तिथि से, उप कमांडेंट (विधि) के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्यग्रहण की तिथि	वैयक्तिक नंबर
(क)	मनीष कुमार सिंह	वेतनमान पीबी-3 रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रु 6600/- में उप कमांडेंट (विधि) के रूप में नियुक्त। वे एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	29 जुलाई 2013	1210-एक्स

(ख)	इन्दू पी	उप कमांडेंट (विधि) वेतनमान पीबी-3 रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रुपये 6600/- में नियुक्त । वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगी।	29 अगस्त 2013	1211-सी
-----	----------	--	---------------	---------

2. राष्ट्रपति लैं कमांडर टी सुन्दरा पांडियन (89140-आर) को, 31 मई 2014 को नौसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात, 01 जून 2014 से भारतीय तटरक्षक में उप कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) (1260-एम) वेतनमान पीबी-3 रुपये 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु 6,600/- में पुनर्नियुक्त करते हैं। वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. राष्ट्रपति, तटरक्षक में निम्नलिखित को उनके समक्ष दर्शाई गई तिथि से सहायक कमांडेंट (जी डी/तकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

सामान्य ड्यूटी/पायलट

क्र. स.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्यग्रहण की तिथि	वैयक्तिक नंबर
(क)	अनिमेश श्रीवास्तव	वेतनमान पीबी-3 रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतनमान रु 5400/- में सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) के रूप में नियुक्त । वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	20 जून 2013	1181-जे
(ख)	मनीष खतियान	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1182-एल
(ग)	आशीष भास्कर	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1183-एम
(घ)	राकेश कुमार अग्रवाल	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1184-पी
(च)	अतुल कुमार यादव	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1185-क्यू
(छ)	अनित कुमार मिश्रा	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1186-एस
(ज)	शुभेन्द्र चक्रवर्ती	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1187-वी
(झ)	आशुतोष	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1188-एक्स
(ट)	उत्कर्ष शर्मा	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1189-सी
(ठ)	अभिषेक सिंह	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1190-डी
(ड)	रितेश गुप्ता	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1191-ई
(ढ)	विकास नारंग	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1192-जे
(ण)	थिंकल थराकन	-उपरोक्त-	21 जून 2013	1193-एल
(त)	जयदीप आर्या	-उपरोक्त-	23 जून 2013	1194-एम

क्र. स.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्यग्रहण की तिथि	वैयक्तिक नंबर
(थ)	हिमांशु शर्मा	वेतनमान पीबी-3 रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतनमान रु 5400/- में सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) के रूप में नियुक्त । वे दो वर्षों की अवधि तक परीवीक्षाधीन रहेंगे।	23 जून 2013	1195-पी
(द)	दीपक चौबे	-उपरोक्त-	15 जुलाई 2013	1196-क्यू
(ध)	अंकुर बनर्जी	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1197-एस
(न)	यतन शर्मा	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1198-वी
(प)	जीवन राज प्रदीप	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1199-एक्स
(फ)	अंकित हुडा	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1200-सी
(ब)	आदित्य राजपूत	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1201-डी
(भ)	रिश्मिन एम वी	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1202-ई
(म)	अर्जुन सिंह टोटेजा	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1203-जे
(य)	जैनी	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1204-एल
(र)	नविता ठकरान	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1205-एम
(ल)	चित्रा बिस्वास	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1206-पी
(व)	रीमा मिश्रा	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1207-क्यू
(श)	पूजा गौड	-उपरोक्त-	20 जून 2013	1208-एस
(ष)	अमित कुमार चौधरी	-उपरोक्त-	24 जून 2013	1209-वी
(स)	नटराजन राजा	-उपरोक्त-	06 सितम्बर 2013	1212-डी
(त्र)	ए रवि चन्द्रन	-उपरोक्त-	06 सितम्बर 2013	1213-ई
(ज)	राम आसरा शर्मा	-उपरोक्त-	06 सितम्बर 2013	1214-जे
(कक)	बलवान सिंह	-उपरोक्त-	06 सितम्बर 2013	1215-एल
(कख)	ए बी रामम	-उपरोक्त-	06 सितम्बर 2013	1216-एम
(कग)	एन प्रकाश कुमार	-उपरोक्त-	06 सितम्बर 2013	1217-पी
(कघ)	नवीन कुमार	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1218-क्यू

क्र. स.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्यग्रहण की तिथि	वैयक्तिक नंबर
(कच)	अमर नाथ पाठक	वेतनमान पीबी-3 रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतनमान रु 5400/- में सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) के रूप में नियुक्त। वे दो वर्षों की अवधि तक परीक्षाधीन रहेंगे।	26 दिसम्बर 2013	1219-एस
(कछ)	पी मैथ्यू खोंगशै	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1220-वी
(कज)	शैलेन्द्र सिंह बिष्ट	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1221-एक्स
(कझ)	जलज वत्स	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1222-सी
(कट)	जीवेश आनन्द	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1223-डी
(कठ)	हर्षित ठुकराल	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1224-ई
(कड)	उदयसेना रेड्डी मारम	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1225-जे
(कढ)	मानवेन्द्र प्रताप सिंह	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1226-एल
(कण)	निखिल जांगीड़	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1227-एम
(कत)	विश्वास कुमार मनवानी	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1228-पी
(कथ)	धीरज कुमार	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1229-क्यू
(कद)	सुधांशु शेखर राय	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1230-एस
(कध)	हर्ष पांडे	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1231-वी
(कन)	निबार्थी दिनेश	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1232-एक्स
(कप)	अरूण एम	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1233-सी
(कफ)	हिमांशु पंवार	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1234-डी
(कब)	पंकज सिंह	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1235-ई
(कभ)	आदर्श पाल	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1236-जे
(कम)	शिवम	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1237-एल
(कय)	अमित चौहान	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1238-एम
(कर)	अभिषेक वाधवा	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1239-पी
(कल)	मनीष कुमार सिंह	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1240-क्यू

क्र. स.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्यग्रहण की तिथि	वैयक्तिक नंबर
(कव)	अंकित बिजलवान	वेतनमान पीबी-3 रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतनमान रु 5400/- में सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) के रूप में नियुक्त । वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	26 दिसम्बर 2013	1241-एस
(कश)	अनंग कुमार सिंह	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1242-वी
(कष)	रजत मल्होत्रा	-उपरोक्त-	27 दिसम्बर 2013	1243-एक्स
(कस)	आकाश कुमार	-उपरोक्त-	27 दिसम्बर 2013	1244-सी
(कत्र)	वरुण राज एस	-उपरोक्त-	27 दिसम्बर 2013	1245-डी
(कज़)	रंजीत कुमार	-उपरोक्त-	27 दिसम्बर 2013	1246-ई
(खक)	अनुराग पांडे	-उपरोक्त-	27 दिसम्बर 2013	1247-जे
(खख)	निशांत क्रांति	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1248-एल
(खग)	गीत संजय पारिख	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1249-एम
(खघ)	बोनी माइन	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1250-पी
(खच)	पैनी चौधरी	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1251-क्यू
(खछ)	अभिषेक सिंह	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1252-एस
(खज)	नितिश सैनी	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1253-वी
(खझ)	जसनीत कौर	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1254-एक्स
(खट)	शिप्रा नायर	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1255-सी
(खठ)	श्रुति गिरि	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1256-डी
(खड)	अपूर्वा यादव	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1257-ई
(खढ)	श्रुति मोहन जैनापुर	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	1258-जे
(खण)	मनीष थापा	-उपरोक्त-	01 जून 2014	1259-एल

तकनीकी

क्र. स.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्यग्रहण की तिथि	वैयक्तिक नंबर
(क)	अरूण बब्बर	वेतनमान पीबी-3 रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतनमान रु 5400/- में सहायक कमांडेंट (तकनीकी) के रूप में नियुक्त । वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	20 जून 2013	4254-क्यू
(ख)	अमित कुमार उनेरिया	-उपरोक्त-	20 जून 2013	4255-एस
(ग)	विगनेश्वरन एम	-उपरोक्त-	20 जून 2013	4256-वी
(घ)	जेनी वी अगस्ती	-उपरोक्त-	20 जून 2013	4257-एक्स
(च)	विपुल वी	-उपरोक्त-	20 जून 2013	4258-सी
(छ)	सत्यप्रकाश आर	-उपरोक्त-	20 जून 2013	4259-डी
(ज)	अंकित कुमार उनेरिया	-उपरोक्त-	20 जून 2013	4260-ई
(झ)	मुसोल अमोलकुमार वसंत	-उपरोक्त-	21 जून 2013	4261-जे
(ट)	सिद्धांत मिश्रा	-उपरोक्त-	21 जून 2013	4262-एल
(ठ)	अविनाश सिंह	-उपरोक्त-	21 जून 2013	4263-एम
(ड)	अनश्वर गोविंद	-उपरोक्त-	21 जून 2013	4264-पी
(ढ)	रौनक सक्सेना	-उपरोक्त-	20 जून 2013	5165-एम
(ण)	शशांक मिश्रा	-उपरोक्त-	20 जून 2013	5166-पी
(त)	अरजित पोखरियाल	-उपरोक्त-	24 जून 2013	5167-क्यू
(थ)	शैलेन्द्र कुमार	-उपरोक्त-	21 जून 2013	5168-एस
(द)	अरिन्दम मुखर्जी	-उपरोक्त-	23 जून 2013	5169-वी
(ध)	स्वपनिल रविशंकर स्वामी	-उपरोक्त-	23 जून 2013	5170-एक्स
(न)	कृष्णा कुमार	-उपरोक्त-	23 जून 2013	5171-सी
(प)	शेख खासिम	-उपरोक्त-	23 जून 2013	5172-डी
(फ)	देवी प्रसाद पांडा	-उपरोक्त-	23 जून 2013	5173-ई
(ब)	पंकज झा	-उपरोक्त-	01 जुलाई 2013	5174-जे
(भ)	ए आर रवि	-उपरोक्त-	06 सितम्बर 2013	5175-एल
(म)	संजय पॉल	-उपरोक्त-	06 सितम्बर 2013	5176-एम

क्र. स.	नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति	कार्यग्रहण की तिथि	वैयक्तिक नंबर
(य)	कृतिक कुमार बी सी	वेतनमान पीबी-3 रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतनमान रु 5400/- में सहायक कमांडेंट (तकनीकी) के रूप में नियुक्त। वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	26 दिसम्बर 2013	4265-क्यू
(र)	अमनदीप सिंह	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	4266-एस
(ल)	ललित घिलडियाल	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	4267-वी
(व)	अश्विमत खनेजा	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	4268-एक्स
(श)	कार्तिक वी मूर्ति	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	4269-सी
(ष)	निशित सेन	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	4270-डी
(स)	निशांत भारद्वाज	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	4271-ई
(त्र)	विनय वर्मा	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	4272-जे
(ज)	अरूण पुतेनडेटिल दयाल	-उपरोक्त-	28 दिसम्बर 2013	4273-एल
(कक)	रिंसन रोबिन्सन	-उपरोक्त-	28 दिसम्बर 2013	4274-एम
(कख)	केशव मेहरा	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	5177-पी
(कग)	विजेश विजयन नायर	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	5178-क्यू
(कघ)	नितिन रावत	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	5179-एस
(कच)	पांडे प्रतिक प्रदयुमन	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	5180-वी
(कछ)	विकास शर्मा	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	5181-एक्स
(कज)	पंकज यादव	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	5182-सी
(कझ)	विदित राजदान	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	5183-डी
(कट)	सौरभ श्रीवास्तव	-उपरोक्त-	26 दिसम्बर 2013	5184-ई
(कठ)	नितेश कुमार सिंह	-उपरोक्त-	27 दिसम्बर 2013	5185-जे
(कढ)	प्रेमांशु मिश्रा	-उपरोक्त-	28 दिसम्बर 2013	5186-एल

एम सुधीर बाबू
अवर सचिव (त. र.)

थल सेना शाखा

सं. 28, दिनांक 21 जनवरी 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

मेजर जनरल (व समकक्ष) से ले.जनरल (व समकक्ष) के पद पर

- (क) आर चौधरी, एवीएसएम, वीएसएम — 01-07-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-3691एच) काल्पनिक वरीयता 01-07-14 से दी जाती है ।

पवन कपूर

मेजर जनरल

अपर महानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं)

थल सेना शाखा

सं. 29, दिनांक 22 जनवरी 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

- (क) ए के पात्रा — 01-05-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-05091वाई) काल्पनिक वरीयता 01-05-14 से दी जाती है ।

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के पद पर

- (क) एस बागची — 09-05-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
(एमआर-04790एक्स) वरीयता 01-03-13 से दी जाती है ।
- (ख) एन अग्रवाल (एमआर-04890एच) — 04-07-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
वरीयता 02-05-13 से दी जाती है ।
- (ग) आर एम गुप्ता — 06-12-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
(एमआर-04899एक्स) वरीयता 17-06-13 से दी जाती है ।
- (घ) एस एस सिधु — 03-09-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
(एमआर-04907एल) वरीयता 04-07-13 से दी जाती है ।
- (ङ) एन सेठी (एमआर-04909डब्ल्यू) — 05-09-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
वरीयता 05-07-13 से दी जाती है ।
- (च) ए एस संधू (एमआर-04910एल) — 09-09-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
वरीयता 14-08-13 से दी जाती है ।
- (छ) सुनील कांत, वीएसएम — 09-09-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
(एमआर-04920पी) वरीयता 01-09-13 से दी जाती है ।
- (ज) वी शर्मा (एमआर-04921एक्स) — 01-10-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
वरीयता 09-09-13 से दी जाती है ।
- (झ) वी श्रीनिवास (एमआर-05772एफ) — 03-10-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
वरीयता 01-10-13 से दी जाती है ।
- (ञ) आर रामसेथु (एमआर-05773के) — 01-10-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक
वरीयता 02-10-13 से दी जाती है ।

(ट)	जे एस सभ्रवाल (एमआर-05000के)	—	01-11-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-10-13 से दी जाती है ।
(ठ)	एस के गुप्ता (एमआर-04965पी)	—	01-11-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-10-13 से दी जाती है ।
(ड)	सी एस अहलुवालिया (एमआर-04969एल)	—	05-11-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11-10-13 से दी जाती है ।
(ढ)	एच एस अग्रवाल (एमआर-05971पी)	—	06-12-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 30-10-13 से दी जाती है ।
(ण)	एम के गर्ग (एमआर-05590एन)	—	26-12-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-11-13 से दी जाती है ।
(त)	पी मौलिक (एमआर-05033पी)	—	27-12-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-11-13 से दी जाती है ।

ले.कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

ए सेठ (एमआर-06364एच)	—	08-03-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08-05-12 से दी जाती है ।
एस एस छाबडा (एमआर-05856पी)	—	30-08-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-01-07 से दी जाती है ।
बी आर श्रीनाथ (एनटीआर-16598ए)	—	03-07-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-13 से दी जाती है ।

लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

एमआर-05848 डब्ल्यू	ले. कर्नल	श्यामल मैटी	01 फरवरी 2012
एमआर-05633 एक्स	ले. कर्नल	विक्रम सक्सेना	01 जून 2012
एमआर-05839 पी	ले. कर्नल	आर के गुप्ता	01 जून 2013
एमआर-05949 के	ले. कर्नल	के एम तिवारी	28 नवंबर 2013
एमआर-05949 ए	ले. कर्नल	ए आर राजन	01 दिसंबर 2013
एमआर-06501 डब्ल्यू	ले. कर्नल	माला माथुर शर्मा	01 दिसंबर 2013
एमआर-06843 के	ले. कर्नल	सिदार्थ दीक्षित	03 फरवरी 2014
एमआर-06001 वाई	ले. कर्नल	पी आर नंदी	01 जून 2014

सर्ज कमांडर से सर्ज कैप्टन (टीएस) के पद पर

एमआर-05536ए) (एएफ-75394जेड)	सर्ज कमांडर	वी के गोयल	01 दिसंबर 2011
--------------------------------	-------------	------------	----------------

एमआर-06490पी (75478-आर)	सर्ज कमांडर	एस श्रीनिवास	15 सितंबर 2013
एमआर-06142एन (75481-वाय)	सर्ज कमांडर	एस ए कर्ण	20 अक्टूबर 2013
एमआर-07146डब्ल्यू (75480 -डब्ल्यू)	सर्ज कमांडर	वी वी प्रभाकर	09 अप्रैल 2014

धर्मवीर सिंह
ब्रिगे.
उपमहानिदेशक (मा.सं)

थलसेना विभाग

सं. 30, दिनांक 22 जनवरी 2015—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थायी कमीशन)

सर्जन ले. कमाण्डर से सर्जन कमाण्डर के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
क	डी आर-10542एक्स (79058ए)	सर्जन ले कमाण्डर	हरजीत सिंह	20. 11. 2013
ख	डी आर-10593एल (79074एन)	सर्जन ले कमाण्डर	अनिता कापरी	17. 02. 2014

एच एस धंधू
ब्रिगे.
डीडीजीडीएस (पी)

सं. 31, दिनांक 23 जनवरी 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

थलसेना विभाग (एम जी ओ)

इलेक्ट्रानिक्स और मेकेनिकल इंजीनियरिंग कार्मिक

नायब सूबेदार से सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

जादन सिंह राठोर	(जेसी -767055 एच)	14 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
जाधव अजय भीम राव	(जेसी - 767076 वाई)	18 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में		
प्रमोद कुमार शर्मा	(जेसी -767196 एक्स)	21 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में		
राम कुमार मिश्रा	(जेसी -767077 एफ)	12 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (गन) के रैंक में		
राम लाल बिशनाई	(जेसी -762388 एल)	12 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
सुभाशिस राय	(जेसी -762383 एम)	01 जुलाई 2014
रमेश चन्द्र	(जेसी -762529 पी)	19 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
किरत पाल सिंह	(जेसी -762387 एच)	19 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
प्रसांत कुमार पांडा	(जेसी -762531 एम)	17 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*

मुरकोंडा श्रीनिवास राव	(जेसी — 762532 पी)	21 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
हरी पाल	(जेसी — 762534 ए)	18 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
फूल सिंह	(जेसी — 762528 एम)	30 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
विजय कुमार जागिर	नायब सूबेदार से सूबेदार टेक (कम्युनिकेशन) के रैंक में (जेसी — 762562 एम)	01 जुलाई 2014
	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (कम्युनिकेशन) के रैंक में	
रबिउल ईस्लाम	(जेसी — 762570 एल)	01 जुलाई 2014
सुबरत दास	(जेसी — 762330 एन)	01 जुलाई 2014
सुशांता कुमार बर्मन	(जेसी — 762566 एच)	01 जुलाई 2014
पाटिल शरद शंकर	(जेसी — 762567 एल)	01 जुलाई 2014
राजीव आर नायर	(जेसी — 762335 एम)	01 जुलाई 2014
हरेन्द्र सिंह	(जेसी — 762568 एन)	21 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
गंगा राम तिवारी	नायब सूबेदार से सूबेदार आर्टिजन मेटालर्जी के रैंक में (जेसी — 767242 एफ)	08 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
सत्येन्द्र कुमार सिंह	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (बी वेहिकल) के रैंक में (जेसी — 762430 वाई)	22 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
राम बाली पटेल	(जेसी — 762436 ए)	25 जुलाई 2014
		01 जून 2014*
दादासो अप्पासो खोम्बारे	नायब सूबेदार से सूबेदार टेक (जी सी ई) के रैंक में (जेसी — 762278 डब्ल्यू)	21 जून 2014
		01 जून 2014*
अब्दुल्ला खान	नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो टेक (ए वेहिकल) के रैंक में (जेसी — 768365 ए)	22 जुलाई 2014
		01 जून 2014*
लक्ष्मण सिंह बिस्ट	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (जी सी ई) के रैंक में (जेसी — 762280 एन)	25 जून 2014
		01 जून 2014*
शिवु ए	नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो टेक (ई ई) के रैंक में (जेसी — 767936 एफ)	26 जुलाई 2014
		01 जनवरी 2014*
वीरेन्द्र सिंह	नायब सूबेदार से सूबेदार ऑपरेटर और ड्राइवर (रिकवरी) के रैंक में (जेसी — 767054 ए)	28 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (गन) के रैंक में		
राम दिया	(जेसी — 759675 के)	11 नवम्बर 2010
		01 नवम्बर 2010*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (रडार) के रैंक में		
अशोक कुमार सिंह	(जेसी — 762353 पी)	01 अगस्त 2014
घराबिडी उदयनाथ	(जेसी — 762349 एम)	04 अगस्त 2014
		01 अगस्त 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (बी वेहिकल) के रैंक में		
राम मनोहर	(जेसी — 762658 पी)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में		
नागेन्द्र सिंह	(जेसी — 762701 एल)	01 अगस्त 2014
सुकुमार मंडल	(जेसी — 762832 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (कम्युनिकेशन) के रैंक में		
डब्ल्यू डी तुलसी रामजी	(जेसी — 762737 के)	01 अगस्त 2014
सरत चन्द्रा मोहंती	(जेसी — 762340 एक्स)	01 अगस्त 2014
माने हनमंत दादा	(जेसी — 762339 एच)	01 अगस्त 2014
सुरेन्द्र सिंह	(जेसी — 762325 एच)	01 जुलाई 2014
भैरु सिंह राठोर	(जेसी — 762342 एच)	01 अगस्त 2014
ओम प्रकाश सिंह चौहान	(जेसी — 762331 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
		01 जुलाई 2014*
खान्दकोल विश्णु माहादेव	(जेसी — 762738 एम)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (रडार) के रैंक में		
लेखराम स्वामी	(जेसी — 762352 एम)	01 अगस्त 2014
अभिनाथ सिंह	(जेसी — 762348 के)	01 अगस्त 2014
कशमीर सिंह	(जेसी — 762954 ए)	01 अगस्त 2014
संजय कुमार	(जेसी — 762351 के)	01 अगस्त 2014
सुन्दर आर	(जेसी — 762955 एच)	01 अगस्त 2014
हरिश कुमार पी	(जेसी — 763158 के)	01 अगस्त 2014
मनोरंजन दाश	(जेसी — 762358 एन)	01 अगस्त 2014
रमेशचन्द्रा पट्टनायक	(जेसी — 762345 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
धनन्जय प्रसाद सिंह	(जेसी — 762518 एच)	01 अगस्त 2014
भाबनी संकर सिंह	(जेसी — 762359 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
राज कुमार	(जेसी — 762660 एम)	01 अगस्त 2014
नागेन्द्र सिंह	(जेसी — 762346 वाई)	01 अगस्त 2014
मुकेश साहु	(जेसी — 762356 एच)	05 अगस्त 2014
		01 अगस्त 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार आर्टिजन मॅटालर्जी के रैंक में		
राम निवास	(जेसी — 767240 डब्ल्यू)	25 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो टेक बी वेहिकल के रैंक में		
सुजीत कुमार	(जेसी — 768249 एक्स)	21 जुलाई 2014
		01 जून 2014*

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (गन) के रैंक में		
प्रवाकर मिश्रा	(जेसी — 762375 एन)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में		
राज कुमार	(जेसी — 762705 एफ)	01 अगस्त 2014
जीतेन्द्र कुमार शर्मा	(जेसी — 762708 पी)	01 अगस्त 2014
गौतम शर्मा	(जेसी — 762726 एक्स)	01 अगस्त 2014
संतोश कुमार राव	(जेसी — 762729 एल)	01 अगस्त 2014
मनोज कुमार राय	(जेसी — 762703 डब्ल्यू)	02 अगस्त 2014
		01 अगस्त 2014*
एस एल अनील कुमार	(जेसी — 762704 वाई)	01 अगस्त 2014
अनीश कुमार	(जेसी — 762724 एम)	01 अगस्त 2014
पी सक्थीवल	(जेसी — 762710 एम)	01 अगस्त 2014
राजेश	(जेसी — 762707 एम)	01 अगस्त 2014
असोक कुमार वी	(जेसी — 763021 एक्स)	01 अगस्त 2014
पवन कुमार यादव	(जेसी — 762702 एन)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (बी वेहिकल) के रैंक में		
सुनील कुमार	(जेसी — 762741 एम)	01 अगस्त 2014
सुरजीत सिंह	(जेसी — 762739 पी)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ए वेहिकल) के रैंक में		
जया कुमार आर	(जेसी — 762647 एच)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (नेटवर्क) के रैंक में		
धीरेन्द्र सिंह	(जेसी — 762559 एम)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सुबेदार ऑपरेटर और ड्राइवर (रिकवरी) के रैंक में		
जगत सिंह	(जेसी — 767075 डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार से सुबेदार टेक एस एके रैंक में		
कालूराम	(जेसी — 767199 एल)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सुबेदार ए वी एन टेक (ए ई)के रैंक में		
सुब्रमनी के	(जेसी — 766694 एक्स)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सुबेदार ए वी एन टेक (ईलेक्ट)के रैंक में		
सुरसेन माहाराना	(जेसी—766506 एल)	02 अगस्त 2014
		1 अगस्त 2014*
नायब सूबेदार से सुबेदार आटो टेक (ए वेहिकल)के रैंक में		
बिचित्रा कुमार नायक	(जेसी— 767719 एल)	01 जुलाई 2014
		01 अप्रैल 2014*
नायब सूबेदार से सुबेदार ऑटो ईलेक्ट (बी वेहिकल)के रैंक में		
राजेश सिंह	(जेसी — 768176 डब्ल्यू)	04 जुलाई 2014
		01 जनवरी 2014*

नायब सूबेदार से सुबेदार टेक (कम्युनिकेशन) के रैंक में		
जय सिंह	(जेसी- 768590 पी)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार से सुबेदार मास्टर टेक (कम्युनिकेशन) के रैंक में		
अशोक कुमार त्रिपाठी	(जेसी- 762327 एन)	03 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
के प्रमोद	(जेसी- 762333 एफ)	01 जुलाई 2014
अर्जुन प्रसाद	(जेसी- 762329 वाई)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार से सुबेदार मास्टर टेक (कम्युनिकेशन) के रैंक में		
ओम सरन सिंह यादव	(जेसी- 762573 वाई)	02 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
करनजुले पांडुरंग शिवाजी	(जेसी- 762662 एक्स)	12 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
संजय कुमार सिंह	(जेसी- 762576 एम)	05 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
वी एम प्रमोद कुमार	(जेसी- 762334 के)	11 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार से सुबेदार मास्टर टेक (बी वेहिकल) के रैंक में		
गिरिश कुमार पालिवल	(जेसी- 762582 ए)	24 जून 2014
		01 जून 2014*
वी जया कुमार	(जेसी- 762433 एम)	05 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार से सुबेदार मास्टर टेक (गन) के रैंक में		
पाटिल प्रभाकर आत्मा राम	(जेसी- 762530 के)	11 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
राजेन्द्रा कुमार	(जेसी- 762386 ए)	11 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
बासुदेव पात्रा	(जेसी- 762384 पी)	15 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
वीनयाघम	(जेसी- 762533 एक्स)	14 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार से सुबेदार आर्टिजन मेंटालर्जी (जी डी) के रैंक में		
बजरंग लाल	(जेसी- 767239 एफ)	07 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार से सुबेदार मास्टर टेक (नेटवर्क) के रैंक में		
अभय शंकर मिश्रा	(जेसी- 762332 वाई)	14 जुलाई 2014
		01 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार से सुबेदार मशिनिश्ट के रैंक में		
बलविन्द्र सिंह	(जेसी - 765575 पी)	01 मार्च 2013
		04 दिसम्बर 2013*

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में		
वी वेंकटरमना रेड्डी	(जेसी — 762711 पी)	01 अगस्त 2014
वी वेंकटचालम	(जेसी — 762840 पी)	01 सितम्बर 2014
वासुदेव	(जेसी — 762706 के)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार आर्टिजन मेटालर्जी के रैंक में		
विनोद कुमार	(जेसी — 767188 वाई)	<u>23 अगस्त 2014</u>
		01 जून 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (नेटवर्क) के रैंक में		
राजेन्द्र कुमार	(जेसी — 762997 पी)	01 सितम्बर 2014
राजी कुमार सी जी	(जेसी — 762748 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
हरी शंकर	(जेसी — 763203 एल)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो टेक (ई ई) के रैंक में		
चक्रावर्थी डी	(जेसी — 768298 ए)	<u>24 जुलाई 2014</u>
		01 जून 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ए वेहिकल) के रैंक में		
वी ईदवरादसोन	(जेसी — 762649 एन)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (कम्युनिकेशन) के रैंक में		
के पूछन	(जेसी — 763686 एन)	01 सितम्बर 2014
सतिन्द्र जीत सिंह	(जेसी — 762666 एन)	01 सितम्बर 2014
प्रताप सिंह	(जेसी — 762850 वाई)	01 सितम्बर 2014
रमेश जैड	(जेसी — 762842 ए)	01 सितम्बर 2014
जे हरीनाथा रेड्डी	(जेसी — 762849 के)	01 सितम्बर 2014
किशन पाल सिंह	(जेसी — 761830 वाई)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में		
प्रसाद कुमार	(जेसी — 762835 के)	01 सितम्बर 2014
सत्यनारायण साह	(जेसी — 762734 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
अरुनेश कुमार त्रिपाठी	(जेसी — 762735 वाई)	01 सितम्बर 2014
हरजरन्द्र सिंह	(जेसी — 763025 एन)	01 सितम्बर 2014
सतीश कुमार सी यू	(जेसी — 762839 ए)	01 सितम्बर 2014
योगेश कुमार	(जेसी — 762728 एच)	01 अगस्त 2014
भुरा राम गोदरा	(जेसी — 762723 के)	<u>02 अगस्त 2014</u>
		01 अगस्त 2014*
मुकेश शुक्ला	(जेसी — 762836 एम)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (बी वेहिकल) के रैंक में		
राजबीर सिंह	(जेसी — 762581 एक्स)	<u>01 सितम्बर 2014</u>
		01 मई 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो टेक (बी वेहिकल) के रैंक में		
महेश सिंह	(जेसी — 767788 एफ)	<u>01 सितम्बर 2014</u>
		01 जनवरी 2014*
सत्या देव राम	(जेसी — 767276 पी)	<u>01 सितम्बर 2014</u>
		24 जून 2014*

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ऑप्टो) के रैंक में		
धर्म पाल	(जेसी - 763062 एफ)	02 सितम्बर 2014
		01 सितम्बर 2014*
धर्म राज यादव	(जेसी - 763063 के)	01 सितम्बर 2014
रोकदे पांडुरंगभीमाजी	(जेसी - 763054 एच)	01 सितम्बर 2014
जी राजेश	(जेसी - 763060 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (नेटवर्क) के रैंक में		
ए प्रेम स्वरूप	(जेसी - 762918 पी)	01 सितम्बर 2014
एस राजेन्द्रन	(जेसी - 762996 एम)	01 सितम्बर 2014
ए धान्दपानी	(जेसी - 762917 एम)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ए वेहिकल) के रैंक में		
राजेश कुमार यादव	(जेसी - 763210 एफ)	01 सितम्बर 2014
योगेन्द्र कुमार	(जेसी - 762653 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
ध्यान सिंह	(जेसी - 762657 एम)	01 सितम्बर 2014
रत्तीराम यादव	(जेसी - 762652 एन)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार आर्टिजन मेटालर्जी के रैंक में		
निरशु नारायण सिंह	(जेसी - 766343 एच)	01 सितम्बर 2014
		24 जून 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (नेटवर्क) के रैंक में		
दीपु सिंह	(जेसी - 762916 के)	01 सितम्बर 2014
सदानन्द केसकार	(जेसी - 762915 एफ)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ए वेहिकल) के रैंक में		
जय देव सिंह	(जेसी - 762863 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
-----BLANK-----		
मांदे नवनाथसोपन राव	(जेसी - 762655 एफ)	01 सितम्बर 2014
संजीव कुमार सानी	(जेसी - 762650 एच)	01 सितम्बर 2014
लोट दयानन्द राजाराम	(जेसी - 762656 के)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ए वेहिकल) के रैंक में		
प्रदीप कुमार दास	(जेसी - 762864 वाई)	01 सितम्बर 2014
निरज कुमार	(जेसी - 762860 एच)	01 सितम्बर 2014
मदन लाल	(जेसी - 762651 एल)	01 सितम्बर 2014
संजय कुमार	(जेसी - 762861 एल)	01 सितम्बर 2014
विक्रम सिंह	(जेसी - 762862 एन)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ऑप्टो) के रैंक में		
राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	(जेसी - 762865 एफ)	01 सितम्बर 2014
सुर्जया नारायण पट्टनायक	(जेसी - 763057 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
पंकज कुमार	(जेसी - 763059 एफ)	01 सितम्बर 2014
जोजी वर्धेस	(जेसी - 763056 एन)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में		
सुरेश	(जेसी - 763022 ए)	01 सितम्बर 2014
ईंदल सिंह रावत	(जेसी - 762709 एक्स)	07 अगस्त 2014
		01 अगस्त 2014*
संथोश कुमार बी	(जेसी - 762831 एन)	01 सितम्बर 2014
ब्रीज पाल	(जेसी - 762833 वाई)	01 सितम्बर 2014
ए एन सिंह	(जेसी - 763024 एल)	01 सितम्बर 2014
सुनील कुमार सिंह	(जेसी - 762838 एक्स)	01 सितम्बर 2014

संजय कुमार	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (कम्युनिकेशन) के रैंक में (जेसी — 762338 ए)	01 सितम्बर 2014 01 जुलाई 2014*
ओमप्रकाश सिंह	(जेसी — 762844 एल)	01 सितम्बर 2014
राजीव के रंजन	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (कम्युनिकेशन) के रैंक में (जेसी — 762845 एन)	01 सितम्बर 2014
भुपेन्द्र सिंह	(जेसी — 762670 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
यावले कैलाश मुर्लीधर	(जेसी — 762920 एम)	01 सितम्बर 2014
रबीन्द्र कुमार सिंह	नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो ईलेक्ट (बी वेहिकल) के रैंक में (जेसी — 767356 एम)	03 सितम्बर 2014 01 अक्तुबर 2014*
अजय कुमार	नायब सूबेदार से सूबेदार आर्टिजन मेटालर्जी के रैंक में (जेसी — 767187 डब्ल्यू)	01 जून 2014
विजय धर्मेन्द्र सिंह	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (बी वेहिकल) के रैंक में (जेसी — 762645 एक्स)	29 अगस्त 2014 01 अगस्त 2014*
निलेश कुमार सिंह	नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो टेक (बी वेहिकल) के रैंक में (जेसी — 767554 एक्स)	01 सितम्बर 2014 01 जनवरी 2014*
विष्णु सिंह राजपुत	(जेसी — 767330 एक्स)	01 सितम्बर 2014 01 अक्तुबर 2014*
समसुद्धीन खान	नायब सूबेदार से सूबेदार टेक एस ए के रैंक में (जेसी — 767247 ए)	01 सितम्बर 2014
प्रेम कुमार	(जेसी — 766955 ए)	01 सितम्बर 2014 24 जून 2014*
पजहनी कुमार ए	नायब सूबेदार से सूबेदार ए वी एन टेक (आई और पी) के रैंक में (जेसी— 766695 ए)	21 अगस्त 2014 01 अगस्त 2014*
अश्विनी कुमार	(जेसी— 766894 एन)	25 अगस्त 2014 01 अगस्त 2014*
महेश महतो	नायब सूबेदार से सूबेदार ए वी एन टेक (ए ई) के रैंक में (जेसी— 766890 एक्स)	04 सितम्बर 2014 01 सितम्बर 2014*
यश पाल सिंह	(जेसी — 766892 एच)	01 सितम्बर 2014
रमेश जी	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ऑप्टो) के रैंक में (जेसी — 762744 ए)	01 सितम्बर 2014
सत्येन्द्र कुमार राय	(जेसी — 763058 वाई)	01 सितम्बर 2014
कोथपल्ली सुरेश बाबु	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (नेटवर्क) के रैंक में (जेसी — 762993 वाई)	01 सितम्बर 2014
मानवंदी गुनासेखरन ए	(जेसी — 766586 एन)	10 सितम्बर 2014 24 जून 2014*
सतविन्द्र सिंह	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (कम्युनिकेशन) के रैंक में (जेसी — 762848 एफ)	01 सितम्बर 2014
सुन्दर सिंह	(जेसी — 763085 एच)	01 सितम्बर 2014

कन्हैया कुमार साह	(जेसी — 763087 एन)	01 सितम्बर 2014
अनार सिंह	(जेसी — 762843 एच)	01 सितम्बर 2014
हरी राम जाट	(जेसी — 762667 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ए वेहिकल) के रैंक में		
काली पाडा पैन	(जेसी — 762853 एम)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में		
रामजी यादव	(जेसी — 763023 एच)	01 सितम्बर 2014
हरे राम मेहता	(जेसी — 762837 पी)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार टेक (कम्प्युटर) के रैंक में		
विनोद चन्द्र जोशी	(जेसी — 767630 वाई)	09 सितम्बर 2014
		01 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार अर्मामेंट टेक (ए एफ वी/ ए डी) के रैंक में		
ऋवण कुमार गुप्ता	(जेसी — 768588 एक्स)	08 सितम्बर 2014
		01 जुलाई 2014*

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

राजीव जौहरी
अवर सचिव

थलसेना विभाग

सं. 32, दिनांक 23 जनवरी 2015—राष्ट्रपति थलसेना अनुदेश 15/79 के अधीन निम्नलिखित अधिकारी को थल सेना से निवृत्त करते हैं:-

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन कमीशन)
निवृत्ति

क्रम सं.	निजी संख्या	पद एवं नाम	टिप्पणी
क	डी एस-12030के	ले कर्नल (सुश्री) बिन्नी कोहली	07-11-2014 (सायं)

क्रम सं.	निजी संख्या	नाम	टिप्पणी
क	डी एस-12361एल	मेजर सन्नी बांगा	26-08-2014 (प्रातः)

एच एस संघू
ब्रिगे.
डीडीजीडीएस (पी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 14th February 2015

ARMY BRANCH

No. 25, dated 20th January 2015—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

TO BE CAPTAIN (ON PROBATION)

(Antedate of Commission)

DS-12462Y, Capt Ikbāl Hossain — 07-04-2012 (with seniority for pay and promotion from 07-10-2011 (includes 06 months Antedate for holding Hospital appointment as a House Surgeon in Dr R Ahmed Dental College & Hospital, Kolkata, for the period from 01-11-2010 to 31-10-2011, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

NAVY BRANCH

No. 26, dated 20th January 2015—The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch (NAI Cadre, ATC, Observer and Education Branch in Jan 2011 course of the Indian Navy for direct entry scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 15 Jan 2014 from the date shown against the name :—

TO BE SUB LT (ON PROBATION)

Sl. No.	Name of the officers	P. No.	Type of Commission	Date of Commission
EXECUTIVE BRANCH (NAI CADRE) - JAN 11 COURSE				
(i)	Shashank Pujar	06917-W	PC	03 Jan 2011
(ii)	Satbeer Singh	06921-B	PC	04 Jan 2011
(iii)	Sanapala Sridhar Rao	06923-H	PC	06 Jan 2011
(iv)	Bidwai Ravikumar Shankar	06924-K	PC	06 Jan 2011
(v)	Prakash Chandra Mouli	06925-N	PC	10 Jan 2011
EXECUTIVE BRANCH (AIR TRAFFIC CONTROL) - JAN 11				
(i)	Gayatri Kamaleshwari	06882-R	SSC	03 Jan 2011
EXECUTIVE BRANCH (OBSERVER) - JAN 11 COURSE				
(i)	S. Savita	06911-F	SSC	03 Jan 2011
EDUCATION BRANCH – JAN 11 COURSE				
(i)	KM Neelam Kandpal	70637-N	SSC	03 Jan 2011
(ii)	Siva Vidya Sagar Varma Danthuluri	70641-Y	SSC	03 Jan 2011
(iii)	Ashesh Kumar Dubey	70647-K	SSC	18 Jan 2011

AJAY SHARMA
Captain
DMPR (OI & R)

COAST GUARD HEADQUARTERS

No. 27, dated 21st January 2015—

1. The President is pleased to appoint following as Deputy Commandant (Law) in Coast Guard with effect from the date indicated against each :—

S.N.	NAME(SHRI)	APPOINTMENT	DATE OF JOINING	PERSONAL NO.
(a)	Manish Kumar Singh	Appointed as Deputy Comdt (Law) in the Pay Scale of PB-3, Rs 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-. He will be probation of one year.	29 Jul 2013	1210-X
(b)	Indu P	Appointed as Deputy Comdt(Law) in the Pay Scale of PB-3, Rs 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- She will be on probation of two years.	29 Aug 2013	1211-C

2. The President is pleased to re-appoint Lt Cdr T Soundara Pandian (89140-R) as Deputy Commandant (GD) (1260-M) w.e.f. 01 Jun 2014 Consequent upon release from the Indian Navy w.e.f. 31 May 2014 on retirement in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-). The officer will be on probation for a period of two years.

3. The President is pleased to appoint following as Assistant Commandant (GD/Tech) in Coast Guard with effect from the date indicated against each :—

GENERAL DUTY/PILOT/CPL/SSA

S.N.	NAME (SHRI)	APPOINTMENT	DATE OF JOINING	PERSONAL NO.
(a)	Animesh Srivastava	Appointed as Assistant Comdt (GD/PN/CPL/SSA) in the Pay Scale of PB-3, Rs 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years.	20 Jun 2013	1181-J
(b)	Manish Khatiyani	-do-	20 Jun 2013	1182-L
(c)	Aashish Bhaskar	-do-	20 Jun 2013	1183-M
(d)	Rakesh Kumar Agrawal	-do-	20 Jun 2013	1184-P
(e)	Atul Kumar Yadav	-do-	20 Jun 2013	1185-Q
(f)	Anit Kumar Mishra	-do-	20 Jun 2013	1186-S
(g)	Subhendu Chakraborty	-do-	20 Jun 2013	1187-V
(h)	Ashutosh	-do-	20 Jun 2013	1188-X
(j)	Utkersh Sharma	-do-	20 Jun 2013	1189-C
(k)	Abhishek Singh	-do-	20 Jun 2013	1190-D
(l)	Ritesh Gupta	-do-	20 Jun 2013	1191-E
(m)	Vikas Narang	-do-	20 Jun 2013	1192-J
(n)	Thinkal Tharakan	-do-	21 Jun 2013	1193-L

S.N.	NAME (SHRI)	APPOINTMENT	DATE OF JOINING	PERSONAL NO.
(p)	Jaideep Arya	Appointed as Assistant Comdt (GD/PN/CPL/SSA) in the Pay Scale of PB-3, Rs 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years.	23 Jun 2013	1194-M
(q)	Himanshu Sharma	-do-	23 Jun 2013	1195-P
(r)	Deepak Choubey	-do-	15 Jul 2013	1196-Q
(s)	Ankur Banerjee	-do-	20 Jun 2013	1197-S
(t)	Yatan Sharma	-do-	20 Jun 2013	1198-V
(u)	Jeevan Raj Pradeep	-do-	20 Jun 2013	1199-X
(v)	Ankit Hooda	-do-	20 Jun 2013	1200-C
(w)	Aditya Rajput	-do-	20 Jun 2013	1201-D
(x)	Rishwin MV	-do-	20 Jun 2013	1202-E
(y)	Arjun Singh Toteja	-do-	20 Jun 2013	1203-J
(z)	Janey	-do-	20 Jun 2013	1204-L
(aa)	Navita Thakran	-do-	20 Jun 2013	1205-M
(ab)	Chitra Biswas	-do-	20 Jun 2013	1206-P
(ac)	Reema Mishra	-do-	20 Jun 2013	1207-Q
(ad)	Pooja Gaur	-do-	20 Jun 2013	1208-S
(ae)	Amit Kumar Choudhary	-do-	24 Jun 2013	1209-V
(af)	Natarajan Raja	-do-	06 Sep 2013	1212-D
(ag)	A Ravi Chandran	-do-	06 Sep 2013	1213-E
(ah)	Ram Asra Sharma	-do-	06 Sep 2013	1214-J
(aj)	Balwan Singh	-do-	06 Sep 2013	1215-L
(ak)	AB Ramam	-do-	06 Sep 2013	1216-M
(al)	N Prakash Kumar	-do-	06 Sep 2013	1217-P
(am)	Naveen Kumar	-do-	26 Dec 2013	1218-Q
(an)	Amar Nath Pathak	-do-	26 Dec 2013	1219-S
(ap)	P Mathew Khongsai	-do-	26 Dec 2013	1220-V
(aq)	Shailendra Singh Bisht	-do-	26 Dec 2013	1221-X
(ar)	Jalaj Vats	-do-	26 Dec 2013	1222-C
(as)	Jeevesh Anand	-do-	26 Dec 2013	1223-D
(at)	Harshit Thukral	-do-	26 Dec 2013	1224-E
(au)	Udaysena Reddy Maram	-do-	26 Dec 2013	1225-J
(av)	Manvendra Pratap Singh	-do-	26 Dec 2013	1226-L
(aw)	Nikhil Jangir	-do-	26 Dec 2013	1227-M
(ax)	Vishwas Kumar Manwani	-do-	26 Dec 2013	1228-P
(ay)	Dheeraj Kumar	-do-	26 Dec 2013	1229-Q
(az)	Sudhanshu Shekhar Rai	-do-	26 Dec 2013	1230-S
(ba)	Harsh Pandey	-do-	26 Dec 2013	1231-V
(bb)	Nebarthi Dinesh	-do-	26 Dec 2013	1232-X

S.N.	NAME (SHRI)	APPOINTMENT	DATE OF JOINING	PERSONAL NO.
(bc)	Arun M	Appointed as Assistant Comdt (GD/PN/CPL/SSA) in the Pay Scale of PB-3, Rs 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years.	26 Dec 2013	1233-C
(bd)	Himanshu Panwar	-do-	26 Dec 2013	1234-D
(be)	Pankaj Singh	-do-	26 Dec 2013	1235-E
(bf)	Adarsh Pal	-do-	26 Dec 2013	1236-J
(bg)	Shivam	-do-	26 Dec 2013	1237-L
(bh)	Amit Chauhan	-do-	26 Dec 2013	1238-M
(bj)	Abhishek Wadhwa	-do-	26 Dec 2013	1239-P
(bk)	Maneesh Kumar Singh	-do-	26 Dec 2013	1240-Q
(bl)	Ankit Bijalwan	-do-	26 Dec 2013	1241-S
(bm)	Anang Kumar Singh	-do-	26 Dec 2013	1242-V
(bn)	Rajat Malhotra	-do-	27 Dec 2013	1243-X
(bp)	Akash Kumar	-do-	27 Dec 2013	1244-C
(bq)	Varun Raj S	-do-	27 Dec 2013	1245-D
(br)	Ranjeet Kumar	-do-	27 Dec 2013	1246-E
(bs)	Anurag Pandey	-do-	27 Dec 2013	1247-J
(bt)	Nishant Kranti	-do-	26 Dec 2013	1248-L
(bu)	Geet Sanjay Parikh	-do-	26 Dec 2013	1249-M
(bv)	Bonny Myne	-do-	26 Dec 2013	1250-P
(bw)	Penny Chaudhary(W)	-do-	26 Dec 2013	1251-Q
(bx)	Abhishek Singh	-do-	26 Dec 2013	1252-S
(by)	Nitish Saini	-do-	26 Dec 2013	1253-V
(bz)	Jasneet Kaur	-do-	26 Dec 2013	1254-X
(ca)	Shipra Nayyar	-do-	26 Dec 2013	1255-C
(cb)	Shruti Giri	-do-	26 Dec 2013	1256-D
(cc)	Apoorva Yadav	-do-	26 Dec 2013	1257-E
(cd)	Shruti Mohan Jainapur	-do-	26 Dec 2013	1258-J
(ce)	Manish Thapa	-do-	01 Jun 2014	1259-L

TECHNICAL

S.N.	NAME (SHRI)	APPOINTMENT	DATE OF JOINING	PERSONAL NO.
(a)	Arun Babber	Appointed as Assistant Comdt (Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years.	20 Jun 2013	4254-Q
(b)	Amit Kumar Unariya	-do-	20 Jun 2013	4255-S
(c)	Vigneshwaran M	-do-	20 Jun 2013	4256-V

S.N.	NAME (SHRI)	APPOINTMENT	DATE OF JOINING	PERSONAL NO.
(d)	Jane V Augusty	Appointed as Assistant Comdt (Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years.	20 Jun 2013	4257-X
(e)	Vipul V	-do-	20 Jun 2013	4258-C
(f)	Satyaprakash R	-do-	20 Jun 2013	4259-D
(g)	Ankit Kumar Unariya	-do-	20 Jun 2013	4260-E
(h)	Musale Amolkumar Vasant	-do-	21 Jun 2013	4261-J
(j)	Siddhant Mishra	-do-	21 Jun 2013	4262-L
(k)	Avinash Singh	-do-	21 Jun 2013	4263-M
(l)	Anashvar Govind	-do-	21 Jun 2013	4264-P
(m)	Raunaq Saxena	-do-	20 Jun 2013	5165-M
(n)	Shashank Mishra	-do-	20 Jun 2013	5166-P
(p)	Arjit Pokhriyal	-do-	24 Jun 2013	5167-Q
(q)	Shailender Kumar	-do-	21 Jun 2013	5168-S
(r)	Arindam Mukherjee	-do-	23 Jun 2013	5169-V
(s)	Swapnil Ravishankar Swami	-do-	23 Jun 2013	5170-X
(t)	Krishna Kumar	-do-	23 Jun 2013	5171-C
(u)	Sheik Khasim	-do-	23 Jun 2013	5172-D
(v)	Devi Prasad Panda	-do-	23 Jun 2013	5173-E
(w)	Pankaj Jha	-do-	01 Jul 2013	5174-J
(x)	AR Ravi	-do-	06 Sep 2013	5175-L
(y)	Sanjoy Pal	-do-	06 Sep 2013	5176-M
(z)	Kruthik Kumar BC	-do-	26 Dec 2013	4265-Q
(aa)	Amandeep Singh	-do-	26 Dec 2013	4266-S
(ab)	Lalit Ghildiyal	-do-	26 Dec 2013	4267-V
(ac)	Ashmit Khaneja	-do-	26 Dec 2013	4268-X
(ad)	Kartik V Maruthi	-do-	26 Dec 2013	4269-C
(ae)	Nishith Sen	-do-	26 Dec 2013	4270-D
(af)	Nishant Bhardwaj	-do-	26 Dec 2013	4271-E
(ag)	Vinay Verma	-do-	26 Dec 2013	4272-J
(ah)	Arun Puthenkandathil Dayal	-do-	28 Dec 2013	4273-L
(aj)	Rinson Robinson	-do-	28 Dec 2013	4274-M
(ak)	Keshav Mehra	-do-	26 Dec 2013	5177-P
(al)	Vijesh Vijayan Nair	-do-	26 Dec 2013	5178-Q
(am)	Nitin Rawat	-do-	26 Dec 2013	5179-S
(an)	Pandya Pratik Pradyumna	-do-	26 Dec 2013	5180-V

S.N.	NAME (SHRI)	APPOINTMENT	DATE OF JOINING	PERSONAL NO.
(ap)	Vikas Sharma	Appointed as Assistant Comdt (Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years.	26 Dec 2013	5181-X
(aq)	Pankaj Yadav	-do-	26 Dec 2013	5182-C
(ar)	Vidit Razdan	-do-	26 Dec 2013	5183-D
(as)	Saurabh Saraswat	-do-	26 Dec 2013	5184-E
(at)	Nitesh Kumar Singh	-do-	27 Dec 2013	5185-J
(au)	Premanshu Mishra	-do-	28 Dec 2013	5186-L

M SUDHEER BABU
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 28, dated 21st January 2015—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen (& equivalent) to Lt Gen (& equivalent)

- (a) R Chaudhry, AVSM, VSM - 01-07-2014 with notional seniority without effect on pay & pension from (MR-03691H) 01-07-2014.

PAWAN KAPOOR
Maj Gen
Addl DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 29, dated 22nd January 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

- (a) AK Patra - 01-05-14, with notional seniority without effect on pay and (MR-05091Y) pension from 01-05-14.

Col (& Equivalent) to be Brig (& Equivalent)

(a)	S Bagchi (MR-04790X)	-	09-05-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-03-13.
(b)	N Aggarwal (MR-04890H)	-	04-07-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 02-05-13.
(c)	RM Gupta (MR-04899X)	-	06-12-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 17-06-13.
(d)	SS Sidhu (MR-04907L)	-	03-09-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 04-07-13.

(e)	N Sethi (MR-04909W)	-	05-09-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 05-07-13.
(f)	AS Sandhu (MR-04910L)	-	09-09-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 14-08-13.
(g)	Sunil Kant, VSM (MR-04920P)	-	09-09-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-09-13.
(h)	V Sharma (MR-04921X)	-	01-10-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 09-09-13.
(i)	V Srinivas (MR-05772F)	-	03-10-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-10-13.
(j)	R Ramasethu (MR-05773K)	-	01-10-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 02-10-13.
(k)	JS Sabharwal (MR-05000K)	-	01-11-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 03-10-13.
(l)	SK Gupta (MR-04965P)	-	01-11-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 04-10-13.
(m)	CS Ahluwalia (MR-04969L)	-	05-11-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 11-10-13.
(n)	HS Agrawal (MR-05971P)	-	06-12-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 30-10-13.
(o)	MK Garg (MR-05590N)	-	26-12-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-11-13.
(p)	P Moulick (MR-05033P)	-	27-12-13, with notional seniority without effect on pay & pension from 02-11-13.

Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv)

A Seth (MR-06364H)	-	08-03-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 08-05-12.
SS Chhabra (MR-05856P)	-	30-08-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-01-07.
B R Srinath (NTR-16598A)	-	03-07-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-06-13.

LT COL TO COLONEL (TIME SCALE)

MR-05848W	LT COL	SHYAMAL MAITY	01 FEB 2012
MR-05633X	LT COL	VIKRAM SAXENA	01 JUN 2012
MR-05839P	LT COL	RK GUPTA	01 JUN 2013
MR-05949K	LT COL	KM TIWARI	28 NOV 2013
MR-05908A	LT COL	AR RAJAN	01 DEC 2013
MR-06501W	LT COL	MALA MATHUR SHARMA	01 DEC 2013
MR-6843K	LT COL	SIDDHARTH DIXIT	03 FEB 2014
MR-06001Y	LT COL	PR NANDY	01 JUN 2014

SURG CDR TO SURG CAPT (TIME SCALE)

MR-05536A (75394-Z)	SURG CDR	VK GOYLE	01 DEC 2011
MR-06490P (75478-R)	SURG CDR	S SRINIVAS	15 SEP 2013
MR-06142N (75481-Y)	SURG CDR	SA KARNA	20 OCT 2013
MR-07146W (75480-W)	SURG CDR	V V PRABHAKAR	09 APR 2014

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 30, dated 22nd January 2015—The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION
SURG LT CDR TO SURG CDR

S No	Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
(a)	DR-10542X (79058A)	Surg Lt Cdr	Harjeet Singh	20-11-2013
(b)	DR-10593L (79074N)	Surg Lt Cdr	(Ms) Anita Kapri	17-02-2014

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 31, dated 23rd January 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

TO BE SUB OPR & DVR (REC)

Jaddan Singh Rathore	(JC-767055H)	<u>14 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
Jadhav Ajay Bhim Rao	(JC-767076Y)	<u>18 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*

TO BE SUB TECH (SA)

Pramod Kumar Sharma	(JC-767196X)	<u>21 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
---------------------	--------------	------------------------------------

TO BE SUB TECH (SA)

Ram Kumar Mishra	(JC-767077F)	<u>12 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
------------------	--------------	------------------------------------

TO BE SUB MASTER TECH (GUN)

Ram Lal Bishnoi	(JC-762388L)	<u>12 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
Subhashis Roy	(JC-762383M)	01 Jul 2014
Ramesh Chander	(JC-762529P)	<u>18 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*

Kirat Pal Singh	(JC-762387H)	<u>19 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
Prasanta Kumar Panda	(JC-762531M)	<u>17 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
Murakonda Srinivasa Rao	(JC-762532P)	<u>21 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
Hari Pal	(JC-762534A)	<u>18 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
Phool Singh	(JC-762528M)	<u>30 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
TO BE SUB TECH (COMN)		
Vijay Kumar Jangir	(JC-762562M)	01 Jul 2014
TO BE SUB MASTER TECH (COMN)		
Rabiul Islam	(JC-762570L)	01 Jul 2014
Subrata Das	(JC-762330N)	01 Jul 2014
Sushanta Kumar Barman	(JC-762566H)	01 Jul 2014
Patil Sharad Shankar	(JC-762567L)	01 Jul 2014
Rajeev R Nair	(JC-762335M)	01 Jul 2014
Harendra Singh	(JC-762568N)	<u>21 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
TO BE SUB ARTSN METALLURGY		
Ganga Ram Tiwari	(JC-767242F)	<u>08 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (B VEH)		
Satyendra Kumar Singh	(JC-762430Y)	<u>22 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
Ram Bali Patel	(JC-762436A)	<u>25 Jul 2014</u> 01 Jun 2014*
TO BE SUB TECH (GCE)		
Dadaso Appaso Khombare	(JC-762278W)	<u>21 Jun 2014</u> 01 Jun 2014*
TO BE SUB AUTO TECH (A VEH)		
Abadullah Khan	(JC-768365A)	<u>22 Jul 2014</u> 01 Jun 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (GCE)		
Laxman Singh Bist	(JC-762280N)	<u>25 Jun 2014</u> 01 Jun 2014*
TO BE SUB AUTO TECH (EE)		
Shibu A	(JC-767936F)	<u>26 Jul 2014</u> 01 Jan 2014*
TO BE SUB OPR & DVR (REC)		
Virendra Singh	(JC-767054A)	<u>28 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (GUN)		
Ram Diya	(JC-759675K)	<u>11 Nov 2010</u> 01 Nov 2010*
TO BE SUB MASTER TECH (RDR)		
Ashok Kumar Singh	(JC-762353P)	01 Aug 2014

Gharabidi Udhayanatha	(JC-762349M)	<u>04 Aug 2014</u> 01 Aug 2014*
	TO BE SUB MASTER TECH (B VEH)	
Ram Manohar	(JC-762658P)	01 Aug 2014
	TO BE SUB MASTER TECH (ELECT)	
Nagender Singh	(JC-762701L)	01 Aug 2014
Sukumar Mandal	(JC-762832W)	01 Aug 2014
	TO BE SUB MASTER TECH (COMN)	
W D Tulshi Ramji	(JC-762737K)	01 Aug 2014
Sarat Chandra Mohanty	(JC-762340X)	01 Aug 2014
Mane Hanmant Dada	(JC-762339H)	01 Aug 2014
Surendra Singh	(JC-762325H)	01 Jul 2014
Bhairu Singh Rathore	(JC-762342H)	01 Aug 2014
OM Prakash Singh Chauhan	(JC-762331W)	<u>01 Aug 2014</u> 01 Jul 2014*
Khandkole Vishnu Mahadev	(JC-762738M)	01 Aug 2014
	TO BE SUB MASTER TECH (RDR)	
Lekhram Swami	(JC-762352M)	01 Aug 2014
Abhinath Singh	(JC-762348K)	01 Aug 2014
Kashmir Singh	(JC-762954A)	01 Aug 2014
Sanjay Kumar	(JC-762351K)	01 Aug 2014
Sundar R	(JC-762955H)	01 Aug 2014
Harish Kumar P	(JC-763158K)	01 Aug 2014
Manoranjan Dash	(JC-762358N)	01 Aug 2014
Rameshchandra Pattanaik	(JC-762345W)	01 Aug 2014
Dhananjay Prasad Singh	(JC-762518H)	01 Aug 2014
Bhabani Sankar Singh	(JC-762359W)	01 Aug 2014
Raj Kumar	(JC-762660M)	01 Aug 2014
Nagendra Singh	(JC-762346Y)	01 Aug 2014
Mukesh Sahu	(JC-762356H)	<u>05 Aug 2014</u> 01 Aug 2014*
	TO BE SUB ARTSN METALLURGY (GD)	
Ram Niwas	(JC-767240W)	<u>25 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
	TO BE SUB AUTO TECH (B VEH)	
Sujit Kumar	(JC-768249X)	<u>21 Jul 2014</u> 01 Jun 2014*
	TO BE SUB MASTER TECH (GUN)	
Pravakar Mishra	(JC-762375N)	01 Aug 2014
	TO BE SUB MASTER TECH (ELECT)	
Raj Kumar	(JC-762705F)	01 Aug 2014
Jitendra Kumar Sharma	(JC-762708P)	01 Aug 2014
Gautam Sharma	(JC-762726X)	01 Aug 2014
Santosh Kumar Rao	(JC-762729L)	01 Aug 2014
Manoj Kumar Rai	(JC-762703W)	01 Aug 2014
S L Anil Kumar	(JC-762704Y)	01 Aug 2014
Anish Kumar	(JC-762724M)	01 Aug 2014

P Sakthivel	(JC-762710M)	01 Aug 2014
Rajesh	(JC-762707M)	01 Aug 2014
Asok Kumar V	(JC-763021X)	01 Aug 2014
Pawan Kumar Yadav	(JC-762702N)	01 Aug 2014
TO BE SUB MASTER TECH (B VEH)		
Sunil Kumar	(JC-762741M)	01 Aug 2014
Surjit Singh	(JC-762739P)	01 Aug 2014
TO BE SUB MASTER TECH (A VEH)		
Jaya Kumar R	(JC-762647H)	01 Aug 2014
TO BE SUB MASTER TECH (NW)		
Dhirendra Singh	(JC-762559M)	01 Aug 2014
TO BE SUB OPR & DVR (REC)		
Jagat Singh	(JC-767075W)	01 Jul 2014
TO BE SUB TECH (SA)		
Kalooram	(JC-767199L)	01 Aug 2014
TO BE SUB AVN TECH (AE)		
Subramani K	(JC-766694X)	01 Aug 2014
TO BE SUB AVN TECH (ELECT)		
Surasen Maharana	(JC-766506L)	<u>02 Aug 2014</u> 01 Aug 2014*
TO BE SUB AUTO TECH (A VEH)		
Bichitra Kumar Nayak	(JC-767719L)	<u>01 Jul 2014</u> 01 Apr 2014*
TO BE SUB AUTO ELECT (B VEH)		
Rajesh Singh	(JC-768176W)	<u>04 Jul 2014</u> 01 Jan 2014*
TO BE SUB TECH (COMN)		
Jai Singh	(JC-768590P)	01 Jul 2014
TO BE SUB MASTER TECH (COMN)		
Ashok Kumar Tripathi	(JC-762327N)	<u>03 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
K Pramod	(JC-762333F)	01 Jul 2014
Arjun Prasad	(JC-762329Y)	01 Jul 2014
OM Saran Singh Yadav	(JC-762573Y)	<u>02 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (COMN)		
Karanjule Pandurang Shivaji	(JC-762662X)	<u>12 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
Sanjay Kumar Singh	(JC-762576M)	<u>05 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
VM Pramod Kumar	(JC-762334K)	<u>11 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (B VEH)		
Girish Kumar Paliwal	(JC-762582A)	<u>24 Jun 2014</u> 01 Jun 2014*
V Jaya Kumar	(JC-762433M)	<u>05 Jul 2014</u> 01 Jun 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (GUN)		
Patil Prabhakar Atma Ram	(JC-762530K)	<u>11 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*

Rajendra Kumar	(JC-762386A)	<u>11 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
Basudev Patra	(JC-762384P)	<u>15 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
Vinayagham	(JC-762533X)	<u>14 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
TO BE SUB ARTSN METGD		
Bajrang Lal	(JC-767239F)	<u>07 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (NW)		
Abhay Shankar Mishra	(JC-762332Y)	<u>14 Jul 2014</u> 01 Jul 2014*
TO BE SUB MACHINIST		
Balwinder Singh	(JC-765575P)	<u>01 Mar 2013</u> 04 Dec 2012*
TO BE SUB MASTER TECH (ELECT)		
V Venkataramana Reddy	(JC-762711P)	01 Aug 2014
V Venkatachalam	(JC-762840P)	01 Sep 2014
Vasudev	(JC-762706K)	01 Aug 2014
TO BE SUB ARTSNMET (GD)		
Vinod Kumar	(JC-767188Y)	<u>23 Aug 2014</u> 01 Jun 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (NW)		
Rajendra Kumar	(JC-762997P)	01 Sep 2014
Raji Kumar CG	(JC-762748W)	01 Sep 2014
Hari Shankar	(JC-763203L)	01 Sep 2014
TO BE SUB AUTO TECH (EE)		
Chakravarthy D	(JC-768298A)	<u>24 Jul 2014</u> 01 Jun 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (A VEH)		
V Edwaradson	(JC-762649N)	01 Aug 2014
TO BE SUB MASTER TECH (COMN)		
K Poochan	(JC-763686N)	01 Sep 2014
Satinder Jit Singh	(JC-762666N)	01 Sep 2014
Partap Singh	(JC-762850Y)	01 Sep 2014
Ramesh Z	(JC-762842A)	01 Sep 2014
J Harinadha Reddy	(JC-762849K)	01 Sep 2014
Kishan Pal Singh	(JC-761830Y)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (ELECT)		
Prasad Kumar	(JC-762835K)	01 Sep 2014
Satyanarayan Sah	(JC-762734W)	01 Sep 2014
Arunesh Kumar Tripathi	(JC-762735Y)	01 Sep 2014
Harjinder Singh	(JC-763025N)	01 Sep 2014
Satish Kumar C U	(JC-762839A)	01 Sep 2014
Yogesh Kumar	(JC-762728H)	01 Aug 2014
Bhura Ram Godara	(JC-762723K)	<u>02 Aug 2014</u> 01 Aug 2014*
Mukesh Shukla	(JC-762836M)	01 Sep 2014

TO BE SUB MASTER TECH (B VEH)		
Rajbir Singh	(JC-762581X)	<u>01 Sep 2014</u> 01 May 2014*
TO BE SUB AUTO TECH (B VEH)		
Mahesh Singh	(JC-767788F)	<u>01 Sep 2014</u> 01 Jan 2014*
Satya Deo Ram	(JC-767276P)	<u>01 Sep 2014</u> 24 Jun 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (OPTO)		
Dharam Pal	(JC-763062F)	<u>02 Sep 2014</u> 01 Sep 2014*
Dharam Raj Yadav	(JC-763063K)	01 Sep 2014
Rokade Pandurangbimaji	(JC-763054H)	01 Sep 2014
G Rajesh	(JC-763060W)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (NW)		
A Prem Swaroop	(JC-762918P)	01 Sep 2014
S Rajendran	(JC-762996M)	01 Sep 2014
A Dhandapani	(JC-762917M)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (A VEH)		
Rajesh Kumar Yadav	(JC-763210F)	01 Sep 2014
Yogendra Kumar	(JC-762653W)	01 Sep 2014
Dhyan Singh	(JC-762657M)	01 Sep 2014
Ratti Ram Yadav	(JC-762652N)	01 Sep 2014
TO BE SUB ARTSNMET (GD)		
Nirashu Narayan Singh	(JC-766343H)	<u>01 Sep 2014</u> 26 Jun 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (NW)		
Deepu Singh	(JC-762916K)	01 Sep 2014
Sadanand Kesarkar	(JC-762915F)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (A VEH)		
Jai Dev Singh	(JC-762863W)	01 Sep 2014
Mande Navnathsopan Rao	(JC-762655F)	01 Sep 2014
Sanjeev Kumar Sani	(JC-762650H)	01 Sep 2014
Lot Dayanand Rajaram	(JC-762656K)	01 Sep 2014
Pradeep Kumar Das	(JC-762864Y)	01 Sep 2014
Niraj Kumar	(JC-762860H)	01 Sep 2014
Madan Lal	(JC-762651L)	01 Sep 2014
Sanjay Kumar	(JC-762861L)	01 Sep 2014
Vikram Singh	(JC-762862N)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (OPTO)		
Rajender Prasad Sharma	(JC-762865F)	01 Sep 2014
Surjya Narayana Pattanayak	(JC-763057W)	01 Sep 2014
Pankaj Kumar	(JC-763059F)	01 Sep 2014
Joji Varghese	(JC-763056N)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (ELECT)		
Suresh	(JC-763022A)	01 Sep 2014
Indal Singh Rawat	(JC-762709X)	<u>07 Aug 2014</u> 01 Aug 2014*

Santhosh Kumar B	(JC-762831N)	01 Sep 2014
Brij Pal	(JC-762833Y)	01 Sep 2014
A N Singh	(JC-763024L)	01 Sep 2014
Sunil Kumar Singh	(JC-762838X)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (COMN)		
Sanjay Kumar	(JC-762338A)	<u>01 Sep 2014</u>
		01 Jul 2014*
OM Prakash Singh	(JC-762844L)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (COMN)		
Rajeev K Ranjan	(JC-762845N)	01 Sep 2014
Bhupinder Singh	(JC-762670W)	01 Sep 2014
Yevale Kailas Murlidhar	(JC-762920M)	01 Sep 2014
TO BE SUB AUTO ELECT (B VEH)		
Rabindra Kumar Singh	(JC-767356M)	<u>03 Sep 2014</u>
		01 Oct 2014*
TO BE SUB ARTSNMET (GD)		
Ajay Kumar	(JC-767187W)	01 Jun 2014
TO BE SUB MASTER TECH (B VEH)		
Vijay Dharmendra Singh	(JC-762645X)	<u>29 Aug 2014</u>
		01 Aug 2014*
TO BE SUB AUTO TECH (B VEH)		
Nilesh Kumar Singh	(JC-767554X)	<u>01 Sep 2014</u>
		01 Jan 2014*
Vishnu Singh Rajput	(JC-767330X)	<u>01 Sep 2014</u>
		01 Oct 2013*
TO BE SUB TECH (SA)		
Samsuddeen Khan	(JC-767247A)	01 Sep 2014
Prem Kumar	(JC-766955A)	<u>01 Sep 2014</u>
		24 Jun 2014*
TO BE SUB AVN TECH (I&P)		
Pazhani Kumar A	(JC-766695A)	<u>21 Aug 2014</u>
		01 Aug 2014*
Ashwini Kumar	(JC-766894N)	<u>25 Aug 2014</u>
		01 Aug 2014*
TO BE SUB AVN TECH (AE)		
Mahesh Mahto	(JC-766890X)	<u>04 Sep 2014</u>
		01 Sep 2014*
TO BE SUB AVN TECH (AVS)		
Yesh Pal Singh	(JC-766892H)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (OPTO)		
Ramesh G	(JC-762744A)	01 Sep 2014
Satyendra Kumar Ray	(JC-763058Y)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (NW)		
Kothapalli Suresh Babu	(JC-762993Y)	01 Sep 2014
Manavandi Gunasekaran A	(JC-766586N)	<u>10 Sep 2014</u>
		24 Jun 2014*
TO BE SUB MASTER TECH (COMN)		
Satvinder Singh	(JC-762848F)	01 Sep 2014

Sunder Singh	(JC-763085H)	01 Sep 2014
Kanhaiya Kumar Sah	(JC-763087N)	01 Sep 2014
Anar Singh	(JC-762843H)	01 Sep 2014
Hari Ram Jat	(JC-762667W)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (A VEH)		
Kali Pada Pain	(JC-762853M)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (ELECT)		
Ramji Yadav	(JC-763023H)	01 Sep 2014
Hare Ram Mehta	(JC-762837P)	01 Sep 2014
TO BE SUB MASTER TECH (CMPTR)		
Vinod Chandra Joshi	(JC-767630Y)	<u>09 Sep 2014</u>
		01 Jan 2014*
TO BE SUB ARMT TECH (AFV/AD)		
Shravan Kumar Gupta	(JC-768588X)	<u>08 Sep 2014</u>
		01 Jul 2014*

* Gtd ante date seniority

RAJEEV JAUHARI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 32, dated 23rd January, 2015—The President is pleased to release the undermentioned Officer from Army Service w.e.f. the date shown against their names under AI 15/79.

REGULAR ARMY ARMY DENTAL CORPS SHORT SERVICE COMMISSION RELEASE

S No	Pers No	Rank & Name	Date of Release
(a)	DS-12030K	Lt Col (Ms) Binny Kohli	07-11-14 (AN)
(a)	DS-12361L	Maj Sunny Banga	26-08-14 (FN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in